



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2—अगस्त 8, 2003 (श्रावण 11, 1925)
No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2—AUGUST 8, 2003 (SHRAVANA 11, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110069, दिनांक 3 जुलाई 2003

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 10 जुलाई 2003

सं. ए. 12025(II)/2/99-प्रशा.3--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के नियमित सहायक श्री अनिल जैन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 अप्रैल, 2003 के का. ज्ञा. सं. 5/15/2001-सी. एस. I के तहत वरिष्ठता कोटा वर्ष 2000 के लिए अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने हेतु संघ लोक आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में उनका नामांकन होने के फलस्वरूप उन्हें 30 जून 2003 के पूर्वाह्न से संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. निर्मला राव
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/2764/3/69/95-प्रशा.5--श्री एम.एम्. राय ने अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 30-06-2003 अपराह्न से पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस.डी. बैजल
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2003

सं. 2/15/03-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री आर.एन. नायक को अवर सचिव के पद पर

वेतनमान रु. 10000-325-15,200/- में तदर्थ रूप से दिनांक 08-07-2003 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)

सं. 2/27/02-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा आयोग में निम्नलिखित सहायकों को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10500/- में तदर्थ रूप से दिनांक 18-07-2003 (पूर्वाह्न) से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं:

- (i) श्री बी. के. सैनी
- (ii) श्री मुकेश कुमार
- (iii) श्री फ्रांसिस एक्का

2. उपर्युक्त अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (स्टाफ) नियमावली, 1964 के नियम 9 के अन्तर्गत पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे नियमित नियुक्ति के लिए उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

मांगे लाल
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 जुलाई 2003

सं. ई-16013(1)/4/92-कार्मिक-I/भापुसे-III/1322--गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर नियुक्ति होने पर, श्री बी.बी. मिश्र, भापुसे (ओआर-67) ने महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली के पद का दिनांक 30-6-2003 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है।

अतनु पुरकायस्थ
निदेशक (पुलिस)

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जुलाई 2003

सं. 3/5/2003-प्रशा.-1--राष्ट्रपतिजी, डा. एस.बी. बागची, भा.पु.से (आंध्र प्रदेश-96) को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अधीन

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, कोलकाता में दिनांक 7 जुलाई 2003 पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो प्रधानाचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 जुलाई 2003

सं. ओ.दो. 3464/93-सी.आर.सी.-एन.ओ.--सरकारी सेवा से बर्खास्त हो जाने के फलस्वरूप डा. अश्वनी कुमार नन्द कुलियार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (इरला-3793) कम्पोजिट अस्पताल, के.रि.पु.बल, जम्मू ने दिनांक 25-06-2003 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 25-06-2003 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

सं. ओ.दो.4784/96-कार्मिक-I--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 28-2-2003 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री माधो राम, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल. ए-4784), 16 बटालियन, के.रि.पु. बल, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 1-7-2003 को पूर्वाह्न में त्याग दिया है। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 1-7-2003 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

दिनांक 11 जुलाई, 2003

सं. ओ.दो.897/73-सी.आर.सी.-एम.ओ.--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 17-03-2003 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप डा. जी.सी. सतपथी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (ओ.जी.) (इरला-1186) बेस अस्पताल-3, के.रि.पु.बल, गुवाहटी ने दिनांक 16-06-2003 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 16-06-2003 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

मान सिंह रावत,
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

सं. ओ.दो.3623/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. मनीश नागर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु. बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 11-06-2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 126 बय., के.रि.पु.बल, में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

सं. ओ.दो.3626/03-सी.आर.सी.-एम.ओ.--राष्ट्रपति जी, डॉ. (मिस.) प्रिया दुग्गल को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक के.रि.पु.बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 20-06-2003 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें ग्रुप केन्द्र, के.रि.पु. बल, जालंधर में तैनात किया जाता है।

मान सिंह रावत
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. पी.सात-4/2003-कार्मिक-3--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्नलिखित ने सरकारी सेवा से प्रत्येक के सामने लिखे गये कार्यालय में दर्शाई गयी तिथियों को प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार का त्याग कर दिया है:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहां कार्यभार त्याग	कार्यभार त्यागने की तिथि
1.	श्री जे.एल. डोगरा	महानिदेशालय के.रि.पु. बल, प्रशासन-एक	31-03-2003 (अपराह्न)
2.	श्री रतन कुमार	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, अजमेर, राजस्थान	31-12-2002 (अपराह्न)
3.	श्री सी.के. नायर	ग्रुप केन्द्र के.रि.पु. बल, रंगारेड्डी, आन्ध्र प्रदेश	30-11-2002 (अपराह्न)
4.	श्री टी.के. नामबियार	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	30-11-2002 (अपराह्न)

जोगिन्दर सिंह, कमान्डेंट (कार्मिक-3)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-3, दिनांक 15 जुलाई 2003

सं. ई-16015/(2)/1/2002/कार्मिक-1/26--राष्ट्रपति, के औसुब के निम्नलिखित निरीक्षक/कार्य को 8000-275-13500/- रु. के वेतनमान

में सहायक कमान्डेंट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	सहायक कमान्डेंट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1.	आर.सी. सरकार	ओएनजीसी नजीरा	28-03-2003 (पूर्वाह्न)
2.	अमर सिंह	ओएनजीसी त्रिपुरा	01-03-2003 (अपराह्न)
3.	आर.एस. टोकस	समूह मुख्यालय गोहाटी	16-03-2003 (पूर्वाह्न)
4.	आर.के. शर्मा	डोएचपी दुलहस्ती	01-02-2003 (पूर्वाह्न)
5.	कर्ण सिंह	ओएनजीसी नजीरा	25-03-2003 (पूर्वाह्न)
6.	हरीश पाण्डे	आयल दुलियाजान	01-03-2003 (पूर्वाह्न)
7.	एन पी एस चौहान	ओएनजीसी जोरहाट	17.02.2003 (पूर्वाह्न)
8.	जी एल स्वामी	रायपुर एयरपोर्ट	03.02.2003 (पूर्वाह्न)
9.	महेन्द्र सिंह	ओएनजीसी जोरहाट	17.03.2003 (पूर्वाह्न)
10.	चौद सिंह	2, आर. वाहिनी साकेत	04.02.2003 (पूर्वाह्न)
11.	जे पी शर्मा	एनपीपी/एनपीएम जागीरोड	15.03.2003 (पूर्वाह्न)
12.	पी प्रभाकरन	नीसा हैदराबाद	31.01.2003 (पूर्वाह्न)
13.	मनी राम	एचएफसीएल नामरूप	03.03.2003 (पूर्वाह्न)
14.	कैवलजीत सिंह	जयपुर एयरपोर्ट	24.02.2003 (पूर्वाह्न)
15.	मनोहर सिंह बाबा	बदोदरा एयरपोर्ट	26.03.2003 (पूर्वाह्न)
16.	विजय सिंह	नीसा हैदराबाद	11.02.2003 (पूर्वाह्न)
17.	वी के अरोड़ा	ओएनजीसी नजीरा	13.03.2003 (पूर्वाह्न)
18.	कश्मीर सिंह	लखनऊ एयरपोर्ट	17.03.2003 (पूर्वाह्न)
19.	जगजीवन प्रसाद	वाराणसी एयरपोर्ट	17.02.2003 (पूर्वाह्न)
20.	एम एस इनवाटे	मुम्बई एयरपोर्ट	21.04.2003 (पूर्वाह्न)
21.	बी आर मुण्डा	ओएनजीसी नजीरा	10.03.2003 (पूर्वाह्न)
22.	आर एच लक्कवार	ओपीएस नूनमाटी	01.02.2003 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीब
महानिदेशक/के औसुब

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई, 2003

सं० ई-28017/5/अधि०से०नि० एसपीडी/कार्मिक-11/1298--
अधिवाषिता की आयु पूरी होने पर श्री एस० पी० द्विवेदी, वरिष्ठ कमान्डेंट
सरकारी सेवा से दिनांक 30.06.2003 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गये
हैं तथा उन्होंने के०सुब इकाई चतुर्थ आरक्षित वाहिनी, राँची (बिहार) का
पदभार छोड़ दिया है।

आर. सी. अग्रवाल
महानिदेशक/के०सुब

सं० ई-28017/5/अधि०से०नि० आरपीडी/2003/कार्मिक-11/1299--
अधिवाषिता की आयु पूरी होने पर श्री आर. डी. पाल, उप-कमान्डेंट
सरकारी सेवा से दिनांक 30.06.2003 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गये
हैं तथा उन्होंने के०सुब इकाई एमएमसी, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) का
पदभार छोड़ दिया है।

आर. सी. अग्रवाल
महानिदेशक/के०सुब

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग

महालेखाकार (लेखा एवं हक) आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 9 जुलाई 2003

महालेखाकार (लेखा एवं हक) ने श्री शेख सय्यद साहेब, सहायक
लेखा अधिकारी को रु० 7500-250-12000 के वेतनमान पर लेखा
अधिकारी के रूप में 9-7-2003 अपराह के प्रभावी तिथि से पदोन्नति
सहर्ष देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना
कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय
में लंबित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होंगे।

दो. राधाकृष्णामूर्ती
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. प्रशासन V/9-86/V--महालेखाकार (ले व ह), इस कार्यालय के
श्री टी. ए. सेबास्टियन, सहायक लेखा अधिकारी को 7500-250-12000
रु. के वेतनमान में, 01-07-2003 पू. से, लेखा अधिकारी के रूप में
नियुक्त करते हैं।

पी. राधा देवी
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन V/9-86/V--महालेखाकार (ले व ह), इस कार्यालय की
श्रीमती के. एम. शोभा, अनुभाग अधिकारी को 7450-225-11500 रु. के
वेतनमान में, 01-07-2003 पू. से, सहायक लेखा अधिकारी के रूप में
नियुक्त करते हैं।

पी. राधा देवी
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार लेखापरीक्षा का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 17 जुलाई 2003

सं. ले.प/प्रशासन III/9-1/खंड II--निम्नलिखित लेखापरीक्षा
अधिकारियों की अपने नाम के सामने दिखाई गई तारीख से
8000-275-13500 रु. वेतनमान पर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के
रूप में पदोन्नति की गई है:--

क्र सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती	
1.	जी. बाबु	29.08.2002 पूर्वाह
2.	एस चंद्रकुमार	26.08.2002 पूर्वाह
3.	उदयभानु कण्डेत	03.01.2003 अपराह
4.	टी. के. मृदुला	03.01.2003 अपराह
5.	पी. गोविंदनकुट्टी (सं. 1)	03.01.2003 अपराह
6.	ओ. आनंदन	03.01.2003 अपराह
7.	पी. दामोदरन (सं. 1)	01.04.2003 पूर्वाह

नारायणन सी. के.
उप महालेखाकार/प्रशासन

सं. ले.प/प्रशासन III/9-1/खंड II--निम्नलिखित लेखापरीक्षा
अधिकारियों की उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से
7500-250-12000 रु. वेतनमान पर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों के
रूप में पदोन्नति की गई है।

क्र सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	के. सोमन	26.08.2002 पूर्वाह
2.	के. हरि (सं.2)	24.09.2002 पूर्वाह

1	2	3
3.	आर. शशिधरन पिल्लै	24.09.2002 पूर्वाह्न
4.	ओ. एम. मात्यु	24.09.2002 पूर्वाह्न
5.	एम. कुर्यन	25.11.2002 पूर्वाह्न
6.	पी शिवशंकरन नायर	21.11.2002 पूर्वाह्न
7.	वी. पी. सोमशेखरन	25.11.2002 पूर्वाह्न
8.	एन. श्रीनिवासन (सं. 2)	21.11.2002 पूर्वाह्न
9.	के. अरविंदाक्षन (सं. 2)	21.11.2002 पूर्वाह्न
10.	के. अनिलकुमार (सं. 2)	21.11.2002 पूर्वाह्न
11.	पी. के. बालन (सं. 2)	21.11.2002 पूर्वाह्न
12.	के. जे. बर्गीस	31.12.2002 अपराह्न
13.	एल. जोसकुट्टी	01.4.2003 पूर्वाह्न
14.	के. पी. मेरी	01.4.2003 पूर्वाह्न
15.	आर. विद्याधरन	01.5.2003 पूर्वाह्न
16.	पी. तंकराजन	01.5.2003 पूर्वाह्न
17.	के. इस्मैल पिल्लै	01.5.2003 पूर्वाह्न
18.	पी. के. तिलकन	01.5.2003 पूर्वाह्न
19.	के. पी. बर्गीस	02.6.2003 पूर्वाह्न
20.	बी. बाबू राजेंद्रन	02.6.2003 पूर्वाह्न
21.	जोसफ के. मात्यु	02.6.2003 पूर्वाह्न
22.	एन. रवींद्रन पिल्लै	02.6.2003 पूर्वाह्न

नारायणन सी के
उप महालेखाकार/प्रशासन

सं. ले.प/प्रशासन III/9-1/खंड II--निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की उनके नाम के सामने दिखाई गई तारीख से 7450-225-11500 रु. वेतनमान पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की गई है:--

क्र. सं.	नाम	पदभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3
	श्री/श्रीमती	
1.	एम. वी. बाबु	20.08.2002 पूर्वाह्न
2.	वी. मुरलीधरन (सं. 2)	20.08.2002 पूर्वाह्न
3.	पी. एल. जोय	27.08.2002 अपराह्न

1	2	3
4.	शोभित कुमारन	02.09.2002 अपराह्न
5.	वी. लोकनाथन	02.09.2002 अपराह्न
6.	जोस पी. कुर्यन	21.10.2002 पूर्वाह्न
7.	पी. पी. सेव्यर	21.10.2002 पूर्वाह्न
8.	जोर्ज मात्यु	21.10.2002 पूर्वाह्न
9.	के. पी. जोजिकुमार	21.10.2002 पूर्वाह्न
10.	डी. चाक्को	21.10.2002 पूर्वाह्न
11.	एच. राजेंद्र प्रसाद	22.10.2002 पूर्वाह्न
12.	एस. राणी	15.11.2002 पूर्वाह्न
13.	यू. जयरामचंद्रन नायर	25.11.2002 पूर्वाह्न
14.	सी. राजेंद्रनाथ	25.11.2002 पूर्वाह्न
15.	के. के. जोयसी	25.11.2002 पूर्वाह्न
16.	आर. रमेश बाबू	25.11.2002 पूर्वाह्न
17.	एस. कोतंडरामन	25.11.2002 पूर्वाह्न
18.	पी. पी. कुट्टई	26.11.2002 पूर्वाह्न
19.	टी. एन. उणिकृष्ण शर्मा	31.12.2002 अपराह्न
20.	एम. जयचंद्रन	06.3.2003 पूर्वाह्न
21.	एच. पद्मनाभन	01.4.2003 पूर्वाह्न
22.	के. अरुमुखम चेट्टियार	01.4.2003 पूर्वाह्न
23.	डी. ए. मोहनकुमार	01.4.2003 पूर्वाह्न
24.	पी. अरविंदाक्षन (सं. 3)	01.4.2003 पूर्वाह्न
25.	एन. शिवदासन	01.5.2003 पूर्वाह्न
26.	के. ए. जोसफ	01.5.2003 पूर्वाह्न
27.	पी. पी. तंकच्चन	01.5.2003 पूर्वाह्न
28.	सी. विजयकुमार	01.5.2003 पूर्वाह्न
29.	डी. परमेश्वरन नायर	02.6.2003 पूर्वाह्न
30.	आर. रंगनाथस्वामी	02.6.2003 पूर्वाह्न
31.	आर. ओमनकुट्टन पिल्लै	02.6.2003 पूर्वाह्न
32.	के. एन. रामचंद्रन	02.6.2003 पूर्वाह्न
33.	वी. बालसुब्रमण्यन	02.6.2003 पूर्वाह्न
34.	टी. वी. विजयकृष्णन	02.6.2003 पूर्वाह्न

नारायणन सी. के.
उप महालेखाकार/प्रशासन

रक्षा लेखा विभाग
(कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. प्रशा.-1/1467/5/1 (जी): भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके जन्म की तारीख से नीचे दिखाई गई तारीख को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर, रक्षा लेखा विभाग के संख्याबल से हटा दिया गया है तथा तदनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई तारीख को पेंशन स्थापना के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है:--

क्रम सं.	नाम	जन्म की तारीख/ अधिवर्षिता की तारीख	पेंशन स्थापना को स्थानांतरित किए जाने की तारीख
	सर्व/श्री		
1.	राम सिंह	01.07.1943 30.06.2003	01.07.2003
2.	आरु चन्दन	30.06.1943 30.06.2003	01.07.2003
3.	जे.पी. टमटा	01.07.1943 30.06.2003	01.07.2003

कुप्पास्वामी

रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2003

सं. ए-19018/1661/2003-प्रशा. (राज.) विकास आयुक्त (लघु उद्योग), सुगन्ध एवं सुरस विकास केन्द्र, कन्नौज में प्रतिनियुक्ति पर सहायक निदेशक श्री ब्रजेन्द्र कुमार, लघु उद्योग विकास संगठन में नियमित लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (रसायन) को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में लघु उद्योग सेवा संस्थान, लुधियाना में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (रसायन) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 11-06-2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वि. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 2113A/ए-12011(5-के. आर.)/01/19बी--राष्ट्रपति जी, श्री के. रामर को वेधन अभियंता (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के वेतन में स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक 01.05.2003 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 4455/B/ए-19011(1-आर. जी. के.)/03/19ए--राष्ट्रपति जी, श्री रंजीत गंगाधर खंगार को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 02.05.2003 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. 4509/B/ए-19012/(1-एस.के.एम.)/99-19ए--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री एस कृष्णा मोहन, द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I के पद से दिए गए त्यागपत्र को 31.10.01 से स्वीकृत करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 2003

सं. 10/1/2001-स्मारक--प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जे. आर. अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन) महानिदेशक की ओर से एतद्वारा यह निदेश देता हूँ कि गोलकोंडा किला में, बोनालु उत्सव के उपलक्ष्य में 3.7.2003 से 31.7.2003 की अवधि के दौरान सभी रविवारों और बृहस्पतिवारों को पर्यटकों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जे. आर. अग्रवाल
निदेशक (प्रशासन)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

मुंबई-85, दिनांक 15 जुलाई 2003

सं. पीडी/7(2)/2003-आर-III/977--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती संगीता राजाराम नाखवा, प्रवर श्रेणी लिपिक, डी. पी. एस., मुंबई को दिनांक 09.07.2003 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 6500-200-10500 के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 17 जुलाई 2003

सं. पीडी/13(5)/98-आर-III/990--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इस अनुसंधान केन्द्र के निम्नलिखित सहायक कार्मिक अधिकारियों को दिनांक 09.07.2003 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में प्रशासनिक अधिकारी-II के पद पर नियुक्त करते हैं:--

1. श्री सुब्रमणियन विवेक आनंद
2. श्री ओडाशेरी कृष्णन सत्यन

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 11 जुलाई 2003

सं. पऊआ-1(1)/2 के 3--राष्ट्रपति, 1 जुलाई 2003 से वर्ष 2003 तक की शेष अवधि के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग (पऊआ) का निम्नानुसार पुनर्गठन करते हैं:--

- | | |
|--|----------------|
| 1. डॉ. अनिल काकोडकर
सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग | अध्यक्ष (पदेन) |
| 2. डॉ. राजा रमन्ना
सदस्य, राज्य सभा एवं पूर्व अध्यक्ष,
पऊआ एवं सचिव, पऊवि | सदस्य |
| 3. श्री ब्रजेश मिश्र
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव | सदस्य |
| 4. श्री कमल पांडेय
मंत्रिमंडल सचिव | सदस्य |
| 5. श्री डी. सी. गुप्ता
वित्त सचिव एवं सचिव,
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, | सदस्य |
| 6. डॉ. एस. एस. मीनाक्षीसुंदरम
पदेन सचिव, भारत सरकार | सदस्य (वित्त) |
| 7. प्रो. सी.एन.आर. राव
मानद अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू,
प्रगत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर | सदस्य |
| 8. डॉ. वी. के. चतुर्वेदी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ
इंडिया लिमिटेड | सदस्य |

9. श्री बी. भट्टाचार्य
निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

सदस्य

के. मुरलीधर
सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग

मुंबई-400001, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 6(2055)/92-प्रशा./832--अपर सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री सी. डी. चावको, अनुभाग अधिकारी (वेतनमान रु. 6500-200-10500) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक 09 जुलाई, 2003 की पूर्वाह्न से उसी विभाग में रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में प्रशासन अधिकारी-II के ग्रेड में अनुभाग अधिकारी (विशेष ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
स्टाफ संपर्क अधिकारी

सं. 6(1142)/89-प्रशा./833 -अपर सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री जी. संकरन, अनुभाग अधिकारी (वेतनमान रु. 6500-200-10500) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक 09 जुलाई, 2003 की पूर्वाह्न से उसी विभाग में रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में प्रशासन अधिकारी-II के ग्रेड में अनुभाग अधिकारी (विशेष ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
स्टाफ संपर्क अधिकारी

सं. 6(2334)/2002-प्रशा./834--अपर सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री बी. दामोदरन, अनुभाग अधिकारी (वेतनमान रु. 6500-200-10500) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक 09 जुलाई, 2003 की पूर्वाह्न से उसी विभाग में रु. 7500-250-12000 के वेतनमान में प्रशासन अधिकारी-II के ग्रेड में अनुभाग अधिकारी (विशेष ग्रेड) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम. वेणुगोपालन
स्टाफ संपर्क अधिकारी

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700 064, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. बीईसीसी/पदोन्नति/2003/2374--राष्ट्रपति, प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र,

परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता को इसी केन्द्र पर (रु. 12,000-375-16,500/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (ई) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1 फरवरी 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र. नाम सं.	वर्तमान पद	वेतनमान
(सर्वश्री)		रु.
1. डॉ. प्रेममय घोष	वै. अधिकारी (डी)	10,000-325-15200/-
2. एस. के. रॉय	वै. अधिकारी (डी)	10,000-325-15200/-

एन. श्रीनिवास राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. बीईसीसी/पदोन्नति/2003/2376--राष्ट्रपति, प्रसन्नता पूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर (रु. 10,000-375-15,200/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1 फरवरी 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र. नाम सं.	वर्तमान पद	वेतनमान
(सर्वश्री)		रु.
1. आर. साहा	वै. अधिकारी (सी)	8,000-275-13,500/-
2. जे. प्रधान	वै. अधिकारी (सी)	8,000-275-13,500/-
3. बिभास सुर	वै. अधिकारी (सी)	8,000-275-13,500/-

एन. श्रीनिवास राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. बीईसीसी/पदोन्नति/2003/2377--राष्ट्रपति, प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता को इसी केन्द्र पर (रु. 8,000-275-13,500/-) के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (सी) के पद पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए 1 फरवरी 2003 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र. नाम सं.	वर्तमान पद	वेतनमान
		रु.
1. श्री विनय सिंह	वै. सहायक	55,00-175-9,000/-

एन. श्रीनिवास राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय
हैदराबाद-500016, दिनांक 16 जुलाई 2003

शुद्धिपत्र

सं. ए.एम.डी-4/4/2002-भर्ती/1376--अधिसूचना सं. ए.एम.डी.-4/4/2002-भर्ती/1033, दिनांक 14.5.2003 में आंशिक परिवर्तन करते हुए, क्रमांक 12 पर दर्शाए गए नाम को "श्रीमती शास्वती चौधरी" के स्थान पर "श्रीमती शास्वती रायचौधरी" पढ़ा जाए।

के. दामोदरन
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500 062, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1081/1040--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री वसंत राव, वैज्ञानिक अधिकारी, "ई" (वेतनमान रुपए 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 30-06-2003 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-0270/1041--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री ओ.वी.के. नाम्बियार, वैज्ञानिक अधिकारी, "एफ" (वेतनमान रुपए 14,300-400-18,300/-) ने दिनांक 30-06-2003 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-0052/1042--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री सी.वी. भास्कर राव, वैज्ञानिक अधिकारी, "एच" (वेतनमान रुपए 18,400-500-22,400/-) ने दिनांक 30-06-2003 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1094/1043--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री आर. अशोक कुमार, वैज्ञानिक अधिकारी, "एच" (वेतनमान रुपए 18,400-500-22,400/-) ने दिनांक 30.06.2003 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सिल्वर ब्रुक इंजीनियर्स
एण्ड कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/77752/3360--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सिल्वर ब्रुक इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पाल मजूमदार कन्सल्टेशन
एण्ड एक्सपोजे प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/88800/3363--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पाल मजूमदार कन्सल्टेशन एण्ड एक्सपोजे प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स लिथो कलरक्राफ्ट प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/103204/3366--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स लिथो कलरक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टेविराना गार्डेन्स प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/99137/3369--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स टेविराना गार्डेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स क्षत्रीया एण्ड एसोसिएट्स
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/87639/3372--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स क्षत्रीया एण्ड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कासबरी एग्जिम प्राइवेट
लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/90827/3375--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कासबरी एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बजरंग एग्रो प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/05/32923/3378--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स बजरंग एग्रो प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बीएमजी कारपोरेशन लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/48181/3381--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स बीएमजी कारपोरेशन लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जैन एण्ड जैन (गुडगावा) चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/05/31267/3384--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जैन एण्ड जैन (गुडगावा) चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रेन्टेज चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/05/30761/3443--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी

जाती है कि मैसर्स रेन्टेज चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मोहन होके लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/29343/3446--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मोहन होके लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सेम यांत्रिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/101778/3449--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेम यांत्रिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अल्फा पैस्टोकेम लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/51167/3452--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स अल्फा पैस्टोकेम लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आई एण्ड पी मेडिकेयर लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/52226/3455--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स आई एण्ड पी मेडिकेयर लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रायल डियू ड्रोप्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/91265/3458--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रायल डियू ड्रोप्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बी. के. लाटरी एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/88123/3461--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स बी. के. लाटरी एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कन्टेन्टगार्ड काम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. 560(3)/55/104405/3464--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स कन्टेन्टगार्ड काम

प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स विपुल फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/78744/3467--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स विपुल फिनकेप प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्रीनाथ नैचुरल कलर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/81751/3470--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स श्रीनाथ नैचुरल कलर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स नाईटडिंगेल सिक्वोरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एफटीएस-560(5)/55/101709/3473--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स नाईटडिंगेल सिक्वोरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कपूर चन्द एण्ड धूपचन्द प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एलसी/560(3)/6427---कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कपूर चन्द एण्ड धूपचन्द प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विवक्षित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जे.एम.एल. सिविलीटोज लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एलसी/560(3)/25628--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जे.एम.एल. सिन्थोरिटोज लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पूर्वांचल पोजलाना प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एलसी/560(3)/5320--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पूर्वांचल पोखलाना प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स विप्रा इलेक्ट्रीकल्स एण्ड
इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम
प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एलसी/560(3)/17459--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विप्रा इलेक्ट्रीकल्स सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

**कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मनोजवम पेपर्स लिमिटेड
के सम्बन्ध में।**

कानपुर-1, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एलसी/560(3)/13953--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मनोजवम पेपर्स लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री दुर्गेश्वर कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एलसी/560(3)/15102--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री दुर्गेश्वर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गीतांजली हैंडलूम्स प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. एलसी/560(3)/9535--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि

से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गीतांजली हैण्डलूम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जायेगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जायेगी।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 21 जुलाई 2003

सं. एलसी/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	8727	मैसर्स पी. सी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट प्राईवेट लिमिटेड
2.	22446	मैसर्स सुप्रीम कम्पोजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	22444	मैसर्स मार्बल ऑटो कम्पोजेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
4.	22469	मैसर्स सेलेक्ट कम्पोजेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
5.	18462	मैसर्स मोहन फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
6.	3250	मैसर्स मलिक पब्लिसर्स (प्राईवेट) लिमिटेड।

डॉ. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुंबई-400002, दिनांक 11 जुलाई 2003

सं. 560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गयी हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	96015	मैसर्स निर्मिती एगो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	101073	मैसर्स लायल मेडिकल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	46054	मैसर्स हेरील बिल्डर्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	72104	मैसर्स निकुंक मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	80355	मैसर्स अमटीको एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
6.	97403	मैसर्स गुजरात इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	79740	मैसर्स अलटोप इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	87138	मैसर्स स्पीडेज प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड
9.	88835	मैसर्स पी. मनीष इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	114085	मैसर्स आविष्कार प्लान्टेशन लिमिटेड
11.	85939	मैसर्स ट्वीन्स मार्केटिंग एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	119433	मैसर्स लोखंडवाल ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
13.	119502	मैसर्स लोखंडवाल कनसोलेडेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
14.	88772	मैसर्स सोनु क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड।

श्याम-सुन्दर,
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

बैंगलूर-34, दिनांक 11 जुलाई 2003

सं. कं.सं./560(3)/एस.सं. 2003-04--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अगर तीन महीने के अन्दर उचित कारण न बताया गया तो निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उस दिन से कम्पनियां विघटित समझी जायेंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	30480	मैसर्स आलडेस एयर टेक्नालजीस प्राईवेट लिमिटेड
2.	22653	मैसर्स नेटइनफो इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड
3.	28166	मैसर्स जेवू टेक्नालजीस लिमिटेड
4.	24541	मैसर्स अपेक्स डाटासाफ्ट प्राईवेट लिमिटेड
5.	28485	मैसर्स आलटीमम टेक्नालजीस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	27717	मैसर्स प्रिया ई-वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	28051	मैसर्स नूलम्बडा टेक्नालजीस सोल्यूशन्स लिमिटेड
8.	29107	मैसर्स राड डाटाकम (इन्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
9.	26690	मैसर्स चालेन्ज इन्फरमेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	30320	मैसर्स क्वारी स्पेशलिस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	28445	मैसर्स एमगी साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड
12.	30321	मैसर्स पेव स्पेशलिस्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

. टी. एस. डी. प्रसाद राव
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
कर्नाटक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सेशाद्री राई प्रिन्टिंग एण्ड
पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 4 अप्रैल 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-210--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सेशाद्री राई प्रिन्टिंग एण्ड पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स शक्ति मूरुगन एम्परल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 4 जून 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-5212--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शक्ति मूरुगन एम्परल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संजय राजा फाईनान्स एण्ड
इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 10 जुलाई 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-3467--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स संजय राजा फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जेस इलेक्ट्रो टेक्नालजीस
प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 23 जुलाई 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-7194--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जेस इलेक्ट्रो टेक्नालजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अरुल्लिगु करुमारियम्मन
मूवीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 8 अगस्त 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-1733--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अरुल्लिगु करुमारियम्मन मूवीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंगलजोती फाइनान्स एण्ड
लीज़िंग लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 8 अगस्त 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-1775--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर

इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मंगलजोती फाइनेन्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सरोज इन्टरनेशनल लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 8 अगस्त 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-3298--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सरोज इन्टरनेशनल लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अमर ज्योति रीयल इस्टेट एण्ड हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 8 अगस्त 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-1776--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अमर ज्योति रीयल इस्टेट एण्ड हाऊसिंग फाइनेन्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पलनी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 14 अगस्त 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-5370--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पलनी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम

रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डिवार्डन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 9 सितम्बर 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-2420--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स डिवार्डन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हैट्टीमा फिटिंग्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 15 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-7553--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हैट्टीमा फिटिंग्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ईरोड टेनरी एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 15 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-2761--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ईरोड टेनरी एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडू

सं. एस. 560(3)/सी 181-3516--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एल. एम. डब्ल्यू. मैनेजमेन्ट सर्विसेस

लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ऊट्टी गारमेन्ट्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गलेनवियु होटेल लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-6276--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गलेनवियु होटेल लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पतूमै पतिप्पगम प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-4135--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पतूमै पतिप्पगम प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स होटेल वैलत लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-3028--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स होटेल वैलत लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्रीविगनेश्वरा चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-1488--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्रीविगनेश्वरा चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ऊट्टी गारमेन्ट्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-3424--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पिल्लैयारप्पन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-2839--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स फिल्लैबरप्पन चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स डैटेकस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जागेनभेरग शरवाल पेप्परटेबिनक प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-7276--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जागेनभेरग शरवाल पेप्परटेबिनक प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स राततम टेक्सटाईल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-7924--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स राततम टेक्सटाईल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री गवरी स्टील मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर, 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-2765--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री गवरी स्टील मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पुसम कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी. 181-6062--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पुसम कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डैटेकस केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-6157--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री पोकलियम्पन फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-6450--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री पोर्कलियम्न फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री उमयाम्बिका चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स विननर पम्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-2213--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विननर पम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टेक्ससिटी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-3360--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टेक्ससिटी टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एस. एम. एस. हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-5213--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एस. एम. एस. हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रॉयल एवेन्यू सेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-9511--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रॉयल एवेन्यू सेल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री उमयाम्बिका चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-538--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स तृडियलूर मून्शुशमि कालियम्माल फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-6122--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स तूडियलूर मून्तूशामि कालियम्माल फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आर. टी. ए. एम. फाईनान्शियल एण्ड इन्फार्मेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स हेरभिस अक्वा फार्मस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-4599--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हेरभिस अक्वा फार्मस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मद्रास पायनियर प्लास्टोकेम प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-2419--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मद्रास पायनियर प्लास्टोकेम प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स शैलेन्द्रन फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-9287--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शैलेन्द्रन फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डेवोतंग प्रापर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-7464--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स डेवोतंग प्रापर्टी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आर. टी. ए. एम. फाईनान्शियल एण्ड इन्फार्मेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-6630--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स माली फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-6312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स थाली फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ग्रुप एन इस्टेट डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जे. एस. जे. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-6377--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जे. एस. जे. चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री चेन्दूर फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 22 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-3163--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री चेन्दूर फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स राजराजा शयनात चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-7066--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स राजराजा शयनात चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अलोहा ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 12 नवम्बर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-1380--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अलोहा ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ग्रुप एन इस्टेट डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 अक्टूबर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-1893--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री उत्तम टेक्सटाईल्स स्पिनर्स एण्ड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 12 नवम्बर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-1305--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स उत्तम टेक्सटाईल्स स्पिनर्स एण्ड प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सुगम बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-5838--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सुगम बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री योगलक्ष्मी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 11 दिसम्बर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-5084--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री योगलक्ष्मी पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एस.एल.एस.एन. कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 18 दिसम्बर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-7155--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एस.एल.एस.एन. कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स क्रान्तिक हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

सं. एस. 560(3)/सी 181-4156--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स क्रान्तिक हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स राऊत इण्डियन रबर वर्क्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-191--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स राऊत इण्डियन रबर वर्क्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स शार्प एग्री इण्डिया लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4425--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शार्प एग्री इण्डिया लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स के. वी. के. इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स शिवा कान्तीक कामर्शियल लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-8612--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शिवा कान्तीक कामर्शियल लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स दारन स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4680--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स दारन स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जयलक्ष्मी इन्जीनियरिंग मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-635--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जयलक्ष्मी इन्जीनियरिंग मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोरोगनन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3025--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोरोगनन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स के. वी. के. इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7587--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सुन्दर वेयर टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5643--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सुन्दर वेयर टेक्नॉ प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफ़ैक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टेनदन फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफ़ैक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सेल्वराज गणेश चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सेल्वराज गणेश चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफ़ैक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ईमयम फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3541--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ईमयम फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफ़ैक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सन्जीवी सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4488--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सन्जीवी सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफ़ैक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स काटनसिटी सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5663--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स काटनसिटी सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफ़ैक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टेनदन फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6147--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स चोलनाडू फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5594--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स चोलनाडू फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कामधेनु ट्रिक्स एण्ड डिस्टीलरीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एस. एस. पी. डायनमिक इन्जीनियरिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7072--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एस. एस. पी. डायनमिक इन्जीनियरिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अनिच्चा स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6430--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अनिच्चा स्टॉक्स एण्ड शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री आर. वी. एस. स्पिनिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-9463--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री आर. वी. एस. स्पिनिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स भीरांड क्राफ्ट एडवर्टाइजिंग सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-9997--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स भीरांड क्राफ्ट एडवर्टाइजिंग सर्विसेस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कामधेनु ट्रिक्स एण्ड डिस्टीलरीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 14 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-717--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एलीगेन्ट निटर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4406--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एलीगेन्ट निटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सनको बॉयोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स शक्ति शक्तीन्तरी चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में;

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4040--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शक्ति शक्तीन्तरी चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ज्ञानसरोवर फाईनान्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6490--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ज्ञानसरोवर फाईनान्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स त्रिडेस्टियन एलजी रीसाइक्लिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7820--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स त्रिडेस्टियन एलजी रीसाइक्लिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आर. एल. वी. बेनिफिट फण्ड लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5617--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आर. एल. वी. बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सनको बॉयोटेक प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6220--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रघुराम प्रेसीजन इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1953--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रघुराम प्रेसीजन इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गिरिसन एप्पलायन्सेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आर. एल. वी. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एसोसिएट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6081--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आर. एल. वी. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एसोसिएट्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डी. ई. सी. प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3963--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स डी. ई. सी. प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पेसिफिक पार्टनर्स फ्रेन्चाइज डेवलपमेन्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7778--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पेसिफिक पार्टनर्स फ्रेन्चाइज डेवलपमेन्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स चीता शिल्क प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3612--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स चीता शिल्क प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गिरिसन एप्पलायन्सेज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1498--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सुपर टेन टेक्सटाईल एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3242--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सुपर टेन टेक्सटाईल एक्सपोर्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बेस्ट काम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बेस्ट काम्प्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ए. आर. आर. ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में। •

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3732--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए. आर. आर. ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कासमोस चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4124--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कासमोस चिट फण्ड प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स यूनाइटेड केब्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3312--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स यूनाइटेड केब्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कीर्तिमान चिट्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1210--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कीर्तिमान चिट्स एण्ड फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एस. जी. जयराज नाडार एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-296--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एस. जी. जयराज नाडार एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सीगुल टेक्नोलाजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स प्रोमेक्स फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4837--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स प्रोमेक्स फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ए. आर. आर. टेक्सटाईल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5549--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए. आर. आर. टेक्सटाईल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स लाइफटाइम प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6940--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स लाइफटाइम प्रॉपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पायनियर बॉयो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6965--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पायनियर बॉयो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सीगुल टेक्नोलाजीस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7758--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स नियानथ्रिनी लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3052--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स नियानश्रिनी लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सिवमाला फाईनान्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स केशव ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4449--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स केशव ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स वेटल साफ्टनेट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-9053--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वेटल साफ्टनेट टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अम्मु मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-9750--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अम्मु मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रीगल पेपर एण्ड बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-8444--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रीगल पेपर एण्ड बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सिवमाला फाईनान्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6026--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जनगीश्वरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7771--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जनगीश्वरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गनपति शिवविलास चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6162--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गनपति शिवविलास चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोयम्बटूर जानोपकारा फाइनान्स एण्ड चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-40--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोयम्बटूर जानोपकारा फाइनान्स एण्ड चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ओम मंगलनायगी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5730--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ओम मंगलनायगी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स साउदर्न स्टोन प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4171--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स साउदर्न स्टोन प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गिरीनाथ मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1574--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गिरीनाथ मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सी. एण्ड डब्ल्यू. टूल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5125--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सी. एण्ड डब्ल्यू. टूल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एस. एल. आर. एस. साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जया क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-383--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जया क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स वेलन्सी साफ्टेक इन्फोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-9244--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वेलन्सी साफ्टेक इन्फोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पाक्कीयम रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-355--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स पाक्कीयम रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ए. जी. टी. इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7180--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए. जी. टी. इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एस. एल. आर. एस. साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-9793--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गंगोतरी स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5747--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गंगोत्री स्किनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टी. के. एस. फाइनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आर. एस. टी. फायनान्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 17 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4606--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए. जी. टी. इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री थंकम्पन फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6415--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री थंकम्पन फाइनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एन्नारडी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-2799--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एन्नारडी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ओरीगो टेक्नोलाजीस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-8142--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ओरीगो टेक्नोलाजीस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वरज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टी. के. एस. फाइनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3500--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जी. एन. एम. शेयर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5707--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जी. एन. एम. सेयर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोहेशन साफ्टवेयर एण्ड सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-9685--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोहेशन साफ्टवेयर एण्ड सर्विसेस (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रसगोन्तलगुवरदना इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5442--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रसगोन्तलगुवरदना इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स वैट्री इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7695--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वैट्री इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डी. डी. इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3349--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स डी. डी. इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आर्मस्ट्रॉंग क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6224--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आर्मस्ट्रॉंग क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आदिलक्ष्मी फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6224--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स आदिलक्ष्मी फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री शेल्वलक्ष्मी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5622--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री शेल्वलक्ष्मी डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स प्रेमा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1504--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स प्रेमा चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कायम्बटूर स्टर्लिंग चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4392--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोयम्बटूर स्टर्लिंग चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टी. टी. फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7030--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टी. टी. फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टी. आर. एस. निटरम प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7693--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टी. आर. एस. निटरम प्राइवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कल्याणी ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कल्याणी ट्रांसपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गोबाल्ड फायनान्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोवे सेक्रेटरीयल एण्ड फायनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-2618--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोवे सेक्रेटरीयल एण्ड फायनान्सियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अविनाशी पावरलूमस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 28 मार्च 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1944--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अविनाशी पावरलूमस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कारटेल केबल कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7153--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कारटेल केबल कम्प्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स विष्णुलक्ष्मी चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 24 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4065--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विष्णुलक्ष्मी चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गोबाल्ड फायनान्स लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 जनवरी 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6295--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स नामक्कल लीना चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4173--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

सं. एस. 560(3)/सी 181-6916--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बी. एस. जे. कन्सट्रक्शन एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ईरोड श्री रामाकृष्णा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स इदयम फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-2335--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स इदयम फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मगूडापति टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1423--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मगूडापति टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एल. के. पी. एग्रो इन्डस्ट्रीज एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1680--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एल. के. पी. एग्रो इन्डस्ट्रीज एण्ड एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स प्रान्का प्रेसिंग एण्ड स्टाम्पिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1689--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स प्रान्का प्रेसिंग एण्ड स्टाम्पिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ईरोड श्री रामाकृष्णा चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4540--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स इक्सपैन्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-2356--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स इक्सपैन्ड कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स डायलाग इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोथांगिरी वैटिल इक्सट्रैक्शन एण्ड केमिकल फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5418--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोथांगिरी वैटिल इक्सट्रैक्शन एण्ड केमिकल फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बायोजेन प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4921--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बायोजेन प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स हम्मस फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-2915--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हम्मस फायनान्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एवर फ्लो फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7632--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एवर फ्लो फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स डायलाग इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6212--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कौंगू महाराजा फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3203--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोंगू महाराजा फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

बी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मैजेस्टिक ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

बी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स इन्डापल्ली अरविन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-2920--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स इन्डापल्ली अरविन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

बी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स निर्दकिंग फैब्रिक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4539--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स निर्दकिंग फैब्रिक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

बी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स विगन विनायक चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5012--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विगन विनायक चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

बी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एन. एम. एस चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7029--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एन. एम. एस चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

बी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मैजेस्टिक ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4760--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री विष्णुराम फायनान्सिंग प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1675--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन

की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री विष्णुरामफायनाशिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शक्ती इन्जीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टेक्स इण्डिया स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3179--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टेक्स इण्डिया स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जी. एस. गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-2378--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जी. एस. गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स प्रोमो फैंव इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6912--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स प्रोमो फैंव इन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सुलोचना टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 29 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1160--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सुलोचना टेक्सटाईल प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स शक्ती इन्जीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 25 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-819--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स शिवमाला चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 29 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5778--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शिवमाला चिट फण्ड्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कावेरी इन्स्टीच्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 29 अप्रैल 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7480--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कावेरी इन्स्टीच्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गुनाश्री एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7824--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गुनाश्री एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बसी ब्वाय कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-7780--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बसी ब्वाय कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सुगनेश्वरा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1873--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सुगनेश्वरा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स वालापाडी श्रीनिवासा फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1866--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वालापाडी श्रीनिवासा फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स राजाराजन टेक्सटाईल्स मशीनरी
मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी. 181-1803--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स राजाराजन टेक्सटाईल्स मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स अर्मदा रीयल इस्टेट्स एण्ड
कन्सट्रक्शन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 22 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी. 181-6403--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स अर्मदा रीयल इस्टेट्स एण्ड कन्सट्रक्शन एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गुगई स्लेम डाइंग कामन
एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी. 181-7009--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गुगई स्लेम डाइंग कामन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट कम्पनी लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स श्री महाराजा वनस्पती प्रोडक्ट्स
प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 22 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी. 181-3546--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री महाराजा वनस्पती प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एच. आर. बेनिफिट फण्ड
लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 20 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी. 181-6906--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एच. आर. बेनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स हेलवेटिका फायनान्सियल एण्ड
इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 22 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी. 181-7075--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हेलवेटिका फायनान्सियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बी. एफ. एस. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 22 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-8409--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बी. एफ. एस. एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स शार्प इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 22 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-4391--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शार्प इक्युपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सलजेर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 22 मई 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-3789--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सलजेर रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स साविन टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 12 जून 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-5728--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स साविन टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स टेक्ससिटी बेंनिफिट फण्ड लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 12 जून 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-6225--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स टेक्ससिटी बेंनिफिट फण्ड लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स हम्सलक्ष्मी मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 12 जून 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1119--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स हम्सलक्ष्मी मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफंक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स रामराज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-641005, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एस. 560(3)/सी 181-1375--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स रामराज इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मल्टीप्लस फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में।

कोयम्बटूर-541005, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं. एस. 560(3)/सरि. 181-6154--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसार नोटिस दिया जाता है कि अगर इस मामले के विरुद्ध कोई कारण न बताये तो इस तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स मल्टीप्लस फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम रजिस्टर आफ कम्पनीज से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी बन्द (डिफेक्ट) कर दी जाएगी।

वी. सेल्वराज
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 3rd July 2003

No. A-12025(ii)/2/99-Admn. III—Consequent upon his nomination to the CSS Cadre of Union Public Service Commission for inclusion in the Select List of Section Officers' Grade for the year 2000 against seniority quota vide Department Of Personnel and Training OM No. 5/15/2001-CS. I dated 2nd April, 2003, the President is pleased to appoint Shri Anil Jain, a regular Assistant of Department of Revenue, Ministry of Finance as Section Officer in the CSS Cadre in UPSC w. e. f. the fore-noon of 30th June, 2003.

M. NIRMALARAO
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 10th July 2003

No. DPAD 52003/2764/3/69/95-AD.V—Shri M. M. Rai relinquished charge of the post of Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of June 30, 2003.

S. D. BAIJAL
Administrative Officer (Estt.)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 18th July 2003

No. 2/15/03-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri R. N. Nayak, Section Officer in the Commission as Under Secretary in the Scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- for a period of three months w.e.f. 08.07.2003(F/N) or until further orders, whichever is earlier.

MANGELAL
Deputy Secy. (Admn.)

No. 2/27/02-Admn. —The Central Vigilance Commissioner hereby appoints the following Assistants in the Commission Assistants in the Commission as Section Officers in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- purely on ad-hoc basis for a period of three months w.e.f. 18.07.2003 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

1. Shri V. K. Saini.
2. Shri Mukesh Kumar
3. Shri Francis Ekka

2. Their appointments to the post of Section Officer is made purely on ad-hoc basis under Rule 9 of the CVC (Staff)

Rules, 1964 as amended from time to time and will not bestow upon them any claim for regular appointment.

MANGE LAL
Dy. Secy. (Admn.)
For Central Vigilance Commissioner.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 18th July 2003

No. E-16013(I)/4/92-Pers.I/IPS. III/1322—On appointment as Special Secretary in the Ministry of Home Affairs, Shri B. B. Mishra, IPS (OR :67) has relinquished the charge of the post of Director General, Central Industrial Security Force, New Delhi with effect from the afternoon of 30th June 2003.

ATANU PURKAYASTHA
Director (Police).

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 18th July 2003

No. 3/5/2003-Admn. I—The President is pleased to appoint Dr. S. B. Bagchi, IPS (AP : 96) as Principal, Central Detective Training School, Kolkata under the Bureau of Police Research and Development with effect from July 07, 2003 on deputation basis for a period of four years or until further orders, whichever takes place earlier.

A. K. SOOD
Asstt. Director (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 10th July 2003

No. O. II-3464/93-CRC(MCs)—Consequent on dismissal from Govt. service Dr. Ashwani Kumar Nandkuliya, SMO of Composite Hospital, CRPF, Jammu (IRLA No. 3793) relinquished the charge of his post on the afternoon of 25.06.2003. Accordingly his name stands deleted from the strength of the Force from 25.06.2003 (A/N).

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers. I),

No. O. II-4784/96-Pers-I—Consequent on acceptance of his notice dated 28.2.2003 for voluntary retirement from Government service, Shri Madho Ram, Asstt. Commandant (IRLA : 4784) of 16 Bn CRPF has been relieved from his post on 1.7.2003 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 1.7.2003 (FN).

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers-I)

The 11th July 2003

No. O. II-897/73-CRC (MOs)—Consequent on acceptance of his notice dated 17.3.2003 for voluntary retirement from Govt. service, Dr. G. C. Satpathy, CMO (OG) (IRLA No. 1186) of BH-III, CRPF, Guwahati, relinquished the charge of his post on the forenoon of 16.06.2003. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force from 16.06.2003 (FN).

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers. I)

No. O. II-3623/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Maneesh Nagar as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 11.06.2003 till further order. He is posted to 126 BN, CRPF.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers. I)

No. O. II-3626/03-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. (Miss) Priya Duggal as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 20.06.2003 till further order. She is posted to GC CRPF, Jalandhar.

MAN SINGH RAWAT
Addl. DIGP (Pers. I)

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. P. VII-4/2003-Pers.-3—Consequent on their retirement from the Government service on attaining the age of superannuation, the following have relinquished the charge as administrative/Section Officer in the Offices as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of handing over charge
1.	Shri J. L. Dogra	Directorate General, CRPF, (Adm-I Branch)	31.03.2003 (AN)
2.	Shri Ratan Kumar	O/O DIG Ajmer (Raj)	31.12.2002 (AN)
3.	Shri C.K. Nair	GC CRPF Ranga Reddy (AP)	30.11.2002 (AN)
4.	Shri T. K. Nambiar	O/O IGP Southern Sector, Hyderabad (AP)	30.11.2002 (AN)

JOGINDRA SINGH
Commandant (Pers-III),

DIRECTORATE GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 15th July 2003

No. E-16015/(2)/1/2002/PERS.I—The President is pleased to appoint the following Inspector Exe on regular promotion to the rank of Assistant Commandant in the pay scale of Rs. 8000-275-13500/- in CISF with effect from the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Asstt. Commandant/ Exe. on regular basis
1.	R.C. Sarkar	ONGC, Nazira	28.03.2003 (FN)
2.	Amar Singh	ONGC, Tripura	01.03.2003 (AN)
3.	R.S. Tokas	GP HQrs, Guwahati	16.03.2003 (FN)
4.	R.K. Sharma	DHEP, Dulhasti	01.02.2003 (FN)
5.	Karan Singh	ONGC, Nazira	25.03.2003 (FN)
6.	Harish Pandey	OIL, Duliyaajan	01.03.2003 (FN)
7.	N.P.S. Chauhan	ONGC, Jorhat	17.02.2003 (FN)
8.	G.L. Swami	Raipur Airport	03.02.2003 (FN)
9.	Mahinder Singh	ONGC, Jorhat	17.03.2003 (FN)
10.	Chand Singh	2nd, Res. BN Saket	04.02.2003 (FN)
11.	J.P. Sharma	NPP/NPM, Jagiroad	15.03.2003 (FN)
12.	P. Prabhakaran	NISA, Hyderabad	31.01.2003 (FN)
13.	Mani Ram	BVFCL/HFCL, Namrup	03.03.2003 (FN)
14.	Kanwaljit Singh	Jaipur Airport	24.02.2003 (FN)
15.	M.S. Bawa	Vadodara Airport	26.03.2003 (FN)
16.	Vijay Singh	NISA, Hyderabad	11.02.2003 (FN)
17.	V.K. Arora	ONGC, Nazira	13.03.2003 (FN)
18.	Kashmir Singh	Lucknow Airport	17.03.2003 (FN)
19.	Jagjivan Prasad	Varanasi Airport	17.02.2003 (FN)
20.	M.S. Inwate	Mumbai Airport	21.04.2003 (FN)
21.	B.R. Munda	ONGC, Nazira	10.03.2003 (FN)
22.	R.H. Lakakwar	OPS, Noonmati	01.02.2003 (FN)

Sd/-Illegible
Dir. General/CISF

New Delhi-3, the 16th July 2003

No. E-28017/5/2003/Retd. Not/SPD/Pers.II/1298.—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri S.P. Dwivedi, relinquished the charge of the post of Sr. Commandant CISF 4th Res. Bn. Ranchi (Bihar) in afternoon of 30.6.2003.

R.C. AGARWAL
Dir. General (C.I.S.F.)

No. E-28017/5/2003/Retd.Not.RDP/Pers.II/1299.—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri R.D. Pal, relinquished the charge of the post of Dy. Commandant CISF Unit, M.A.M.C. Durgapur (W.B.) in the afternoon of 30.06.2003.

R.C. AGARWAL
Dir. General (C.I.S.F.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
[OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(A & E), ANDHRA PRADESH]

Hyderabad-500004, the 9th July 2003

No. The Accountant General (A & E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the under mentioned Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer in the Scale of pay of Rs. 7500-250-12000 with effect from the date shown against his name.

Sl. No.	Name	Date of assumption of Charge as AO
1.	Sri Shaik Syed Saheb	9.7.2003 AN

The promotion order is without prejudice to the claims of his seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(A & E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 14th July 2003

No. Admn.V/9-86/V/.—The Accountant General (A & E) has been pleased to appoint Shri T.A. Sebastian, Assistant Accounts Officer of this office as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 with effect from 01-07-2003 F.N.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn.V/9-86/V/.—The Accountant General (A & E) has been pleased to appoint Smt. K.M. Sobha, Section Officer of this office as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7450-225-11500 with effect from 01-07-2003 F.N.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

Thiruvananthapuram, the 17th July 2003

No. Au./Admn.III/9-1/Vol.II/.—The following Audit Officers have been promoted as Senior Audit Officers in the

Scale of pay of Rs. 8000-275-13500 with effect from the date indicated against each.

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	G. Babu	29.08.2002 FN
2.	S. Chandrakumar	26.08.2002 FN
3.	Udayabhanu Kandeth	03-01-2003 AN
4.	T.K. Mridula	03.01.2003 AN
5.	P. Govindankutty (Nos. 1)	03.01.2003 AN
6.	O. Anandan	03.01.2003 AN
7.	P. Damodaran (No. 1)	01.04.2003 FN

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

No. Au./Admn.III/9-1/Vol.II/.—The following Assistant Audit Officers have been promoted as Audit Officers in the Scale of pay of Rs. 7500-250-12000 with effect from the date indicated against each.

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
	S/Shri/Smt.	
1.	K. Soman	26.08.2002 FN
2.	K. Hari (No. 2)	24.09.2002 FN
3.	R. Sasidharan Pillai	24.09.2002 FN
4.	O.M. Mathew	24.09.2002 FN
5.	M. Kurien	25.11.2002 FN
6.	P. Sivasankaran Nair	21.11.2002 FN
7.	V.P. Somasekharan	25.11.2002 FN
8.	N. Sreenivasan (No. 2)	21.11.2002 FN
9.	K. Aravindakshan (No. 2)	21.11.2002 FN
10.	K. Anil Kumar (No. 2)	21.11.2002 FN
11.	P.K. Balan (No. 2)	21.11.2002 FN
12.	K.J. Varghese	31.12.2002 AN
13.	L. Josekutty	01.04.2003 FN
14.	K.P. Mary	01.04.2003 FN
15.	R. Vidyadharan	01.05.2003 FN
16.	P. Thankarajan	01.05.2003 FN
17.	K. Esmail Pillai	01.05.2003 FN
18.	P.K. Thilakan	01.05.2003 FN
19.	K.P. Varghese	02.06.2003 FN
20.	B. Babu Rajendran	02.06.2003 FN
21.	Joseph K. Mathew	02.06.2003 FN
22.	N. Ravindran Pillai	02.06.2003 FN

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

No. Au./Admn.III/9-1/Vol.II.—The following Section Officers have been promoted as Assistant Audit Officers in the Scale of pay of Rs. 7450-225-11500 with effect from the date indicated against each:

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge
1.	S/Shri/Smt. M.V. Babu	20.08.2002 FN
2.	V. Muraleedharan (No. 2)	20.08.2002 FN
3.	P.L. Joy	27.08.2002 AN
4.	Sobitha Kumar	02.09.2002 AN
5.	V. Lokanadhan	02.09.2002 AN
6.	Jose P. Kurien	21.10.2002 FN
7.	P.P. Xavier	21.10.2002 FN
8.	George Mathew	21.10.2002 FN
9.	K.P. Jothi Kumar	21.10.2002 FN
10.	D. Chacko	21.10.2002 FN
11.	H. Rajendra Prasad	22.10.2002 FN
12.	S. Rani	15.11.2002 FN
13.	U. Jayaramachandran Nair	25.11.2002 FN
14.	C. Rajendranath	25.11.2002 FN
15.	K.K. Joisy	25.11.2002 FN
16.	R. Ramesh Babu	25.11.2002 FN
17.	S. Kothandaraman	25.11.2002 FN
18.	P.P. Kuttayi	26.11.2002 FN
19.	T.N. Unnikrishna Sarma	31.12.2002 AN
20.	M. Jayachandran	06.03.2003 FN
21.	H. Padmanabhan	01.04.2003 FN
22.	K. Arumughom Chettiar	01.04.2003 FN
23.	D.A. Mohankumar	01.04.2003 FN
24.	P. Aravindakshan (No. 3)	01.04.2003 FN
25.	N. Sivadasan	01.05.2003 FN
26.	K.A. Joseph	01.05.2003 FN
27.	P.P. Thankachan	01.05.2003 FN
28.	C. Vijaykumar	01.05.2003 FN
29.	D. Parameswaran Nair	02.06.2003 FN
30.	R. Ranganathaswamy	02.06.2003 FN
31.	R. Omanakuttan Pillai	02.06.2003 FN
32.	K.N. Ramachandran	02.06.2003 FN
33.	V. Balasubramonian	02.06.2003 FN
34.	T.V. Vijayakrishnan	02.06.2003 FN

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS)

New Delhi-66, the 14th July 2003

No. AN-1/1467/5/1(G).—The under-mentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, who have attained the age of superannuation on the date shown below their date of birth have been struck off the strength of the Defence Accounts Department and accordingly transferred to the Pension Establishment with effect from the dates shown against each :—

Sl. No.	Name	Date of Birth Date of retirement	Date on which transferred to the Pension Establishment
1.	S/Shri Ram Singh	01.07.1943 30.06.2003	01.07.2003
2.	R. Chandran	30.06.1943 30.06.2003	01.07.2003
3.	J. P. Tamta	01.07.1943 30.06.2003	01.07.2003

KUPPASWAMY
Asstt. Controller General
of Defence Accounts (Administration)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 18th July 2003

No. A-19018/1661/2003-Admn(G).—The Development commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri Brajendra Kumar, a regular Small Industry Promotion Officer (Chemical) in Small Industry Development Organisation and Assistant Director, Fragrance and Flavour Development Centre, Kannauj (on deputation) as Assistant Director (Grade II) (Chemical) on officiating basis under Small Industry Development Organisation in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in Small Industries Service Institute, Ludhiana with effect from the forenoon of 11-06-2003 until further orders.

S. V. N. PILLAI
Deputy Director (Admn.)

MINISTRY OF MINES
(DEPARTMENT OF MINES)
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-16, the 14th July, 2003

No. 2113A/A-12011(5-KR)/01/19B.—The President is pleased to appoint Sri K. Ramar to the post of Drilling

Engineer (Jr.) in GSI in the scale of pay of Rs. 8000-275-13,500/- in an officiating capacity with effect from 01.05.2003 (FN) until further orders.

S.K. SINHA
Sr. Administrative Officer,
for Director General, GSI.

No. 4455/B/A-19011(1-RGK)/03/19A—The President is pleased to appoint Shri Ranjit Gangadhar Khangar, to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 02.05.2003 until further orders.

S.K. SINHA
Sr. Administrative Officer,
for Director General, GSI.

The 21st July 2003

No. 4509/B/A-19012(1-SKM)/99-19A.—The Director General, Geological Survey of India is pleased to accept resignation tendered by Shri S. Krishna Mohan, from the post of Asstt. Geologist Gr. I in Geological Survey of India w.e.f. 31.10.01.

S.K. SINHA
Sr. Administrative Officer,
for Director General, GSI.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 2003

No. 10/1/2001-M—In exercise of the powers conferred under rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, I, J. R. Aggarwal, Director (Administration) on behalf of the Director General, hereby direct that no entry fee shall be charges at Golconda Fort, Hyderabad from the visitors on the occasion of Bonalu Festival day on Thursday and Sunday between 03.07.2003 to 31.07.2003.

J.R. AGGARWAL
Director (Administration)
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE (PERSONNEL DIVISION)

Mumbai-400 085, the 15th July 2003

No. PD/7(2)/2003-R-III/977—Controller, BARC appoints Smt. Sangeeta Rajaram Nakhwa, Upper Division Clerk, DPS,

Mumbai to officiate as Asstt. Personnel Officer, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, in this Research Centre w.e.f. the forenoon of 09.07.2003, on regular basis, until further orders.

K.C. DIWAKARAN
Dy. Establishment Officer

The 17th July 2003

Ref.: PD/13(5)/98-R-III/990—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned Assistant Personnel Officers of this Research Centre to officiate as Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 in this Research Centre itself with effect from 09-07-2003 (FN) until further orders.

1. Shri Subramanian Vivek Anand
2. Shri Odassery Krishnan Sathian

K.C. DIWAKARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai 400001, the 11th July 2003

No. AEC-1(1)2K3—The President is pleased to reconstitute the Atomic Energy Commission (AEC) with the following composition with effect from July 1, 2003, for the remaining period of the year 2003:

1. Dr. Anil Kakodkar — Chairman (*ex officio*)
Secretary, Department of Atomic Energy
2. Dr. Raja Ramanna — Member
Member, Rajya Sabha & former Chairman, AEC & Secretary, DAE
3. Shri Brajesh Mishra — Member
Principal Secretary to the Prime Minister
4. Shri Kamal Pande — Member
Cabinet Secretary
5. Shri D.C. Gupta — Member
Finance Secretary & Secretary, Dept. of Expenditure, Ministry of Finance
6. Dr. S.S. Menakshisundaram — Member for Finance
ex officio Secretary to the Government of India
7. Prof. C.N.R. Rao — Member
Honorary President, Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore

8. Dr. V.K. Chaturvedi — Member
Chairman & Managing
Director Nuclear Power
Corporation of India Ltd.
9. Shri B. Bhattacharjee — Member
Director, Bhabha Atomic
Research Centre

K. MURALIDHAR
Secy. to the Atomic Energy Commission

Mumbai-400001, the 14th July 2003

No: 6(2055)/92/Adm/832—Additional Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy hereby, appoints Shri C.D. Chacko, Section Officer (Scale of pay Rs. 6500-200-10,500), Department of Atomic Energy, Mumbai as Section Officer (Special Grade) in the grade of Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 in the same Department with effect from the forenoon of July 9, 2003.

M. VENUGOPALAN
Staff Relations Officer

No: 6(1142)/89/Adm/833—Additional Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy hereby, appoints Shri G. Sankaran, Section Officer (Scale of pay Rs. 6500-200-10,500), Department of Atomic Energy, Mumbai as Section Officer (Special Grade) in the grade of Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 in the same Department with effect from the forenoon of July 9, 2003.

M. VENUGOPALAN
Staff Relations Officer

No: 6(2334)/2002/Adm/834—Additional Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy hereby, appoints Shri B. Damodaran, Section Officer (Scale of pay Rs. 6500-200-10,500), Department of Atomic Energy, Mumbai as Section Officer (Special Grade) in the grade of Administrative Officer-II in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 in the same Department with effect from the forenoon of July 9, 2003.

M. VENUGOPALAN
Staff Relations Officer

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 21st July 2003

No: VECC/Promotion/2003/2374—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific

Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/E (Grade: Rs. 12000-375-16500) in the same Centre with effect from the forenoon of February 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Name	Post held at Present	Grade Rs.
Dr. Premomoy Ghosh	Scientific Officer (D)	10000-325-15200/-
Shri S. K. Roy	Scientific Officer (D)	10000-325-15200/-

N. SRINIVASA RAO
Chief Administrative Officer

No. VECC/Promotion/2003/2376—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/D (Grade Rs. 10000-325-15200) in the same Centre with effect from the forenoon of February 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Sh. R. Saha	Scientific Officer (C)	Rs. 8000-275-13500/-
2.	Sh. J. Pradhan	Scientific Officer (C)	Rs. 8000-275-13500/-
3.	Sh. Bivas Soor	Scientific Officer (C)	Rs. 8000-275-13500/-

N. SRINIVASA RAO
Chief Administrative Officer

No. VECC/Promotion/2003/2377.—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Scientific Assistant of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata as Scientific Officer/C (Grade Rs. 8000-275-13500) in the same Centre with effect from the forenoon of February 01, 2003 in an officiating capacity, until further orders :—

Sl. No.	Name	Post held at Present	Grade
1.	Shri Vinay Singh	Scientific Assistant/B	5500-175-9000/-

N. SRINIVASA RAO
Chief Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR
EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 16th July 2003

CORRIGENDUM

No. AMD-4/4/2002-Rectt/1375.—In partial modification of notification No. AMD-4/4/2002-Rectt./1033 dated 14.05.2003, the name of Sl.No. 12 may please be read as Smt. Shaswati Roychowdhury instead of Smt. Shaswati Choudhury.

K. DAMODARAN
Chief Administrative & Accounts Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 16th July 2003

No. NFC/ADM/PEN/EC-1081/1040.—On attaining the age of superannuation, Shri Vasant Rao, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2003 (A/N).

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-0270/1041.—On attaining the age of superannuation, Shri O. V. K. Nambiar, Scientific Officer 'F' (Scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2003 (A/N).

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-0052/1042.—On attaining the age of superannuation, Shri C.V. Bhaskara Rao, Scientific Officer 'H' (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2003 (A/N).

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-1094/1043.—On attaining the age of superannuation, Shri R. Ashok Kumar, Scientific Officer 'H' (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 30.06.2003 (A/N).

T. Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Silver Brook Engineers And Consultants Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. FTS/560(5)/55/77752/3360—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Silver Brook Engineers And Consultants Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Paul Mazumdar Construction And Expo Private Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. FTS/560(5)/55/88800/3363—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Paul Mazumdar Construction And Expo Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lotho Colourcrafts Private Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

Notice u/s. 560(3)/55/103204/3366—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Lotho Colourcrafts Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Teviraena Gardens Private Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. u/s. 560(3)/55/99137/3369—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Teviraena Gardens Private

Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kshatriya & Associates Private Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. u/s. 560(3)/55/87639/3372—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Kshatriya & Associates Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kasbri Exim Private Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. u/s. 560(3)/55/90827/3375—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Kasbri Exim Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bajrang Agro Private Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. FTS/560(5)/05/32923/3378—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bajrang Agro Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. BMG Corporation Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. u/s. 560(3)/55/48181/3381—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. BMG Corporation Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jain & Jain (Gurgaon) Chit Fund Private Limited.

New Delhi-110003, the 14th July 2003

No. FTS/560(5)/05/31267/3384—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jain & Jain (Gurgaon) Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rentes Chit Fund Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/05/30761/3443—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Rentes Chit Fund Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mohan Hokke Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/29343/3446—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mohan Hokke Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sam Yatrik Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/101778/3449—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sam Yatrik

Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alpha Pestochem Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/51167/3452—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Alpha Pestochem Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. I & P Medicare Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/52226/3455—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. I & P Medicare Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Royal Dew Drops Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/91265/3458—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Royal Dew Drops Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. B. K. Lottery Agency Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/83123/3461—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. B. K. Lottery Agency

Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Contentguard Com. Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. u/s. 560(3)/55/104405/3464—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Contentguard Com. Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vipul Fincap Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/78744/3467—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Vipul Fincap Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shreenath Natural Colours Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/81751/3470—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Shreenath Natural Colours Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nightingale Security Service Private Limited.

New Delhi-110003, the 16th July 2003

No. FTS/560(5)/55/101709/3473—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Nightingale

Security Service Private Limited has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kapoorchand Dhoopchand Private Limited.

Kanpur-208001, the 14th July 2003

No. 560(3)/LC/6427/7386—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Kapoorchand Dhoopchand Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J. M. L. Securities Private Limited.

Kanpur-208001, the 14th July 2003

No. 560(3)/LC/25628/7388—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. J. M. L. Securities Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Poorvanchal Pozalana Private Limited.

Kanpur-208001, the 14th July 2003

No. 560(3)/LC/5320/7390—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Poorvanchal Pozalana Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Bipra Electric and Electronic Systems Private Limited.

Kanpur-208001, the 14th July 2003

No. 560(3)/LC/17459/7392—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the

date hereof, the name of the M/s. Bipra Electric and Electronic Systems Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Manojvam Papers Limited.

Kanpur-208001, the 14th July 2003

No. 560(3)/LC/13953/7394—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Manojvam Papers Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shri Durgeshwar Cold Storage Private Limited.

Kanpur-208001, the 14th July 2003

No. 560(3)/LC/15102/7396—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Shri Durgeshwar Cold Storage Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Geetanji Handlooms Private Limited.

Kanpur-208001, the 14th July 2003

No. 560(3)/LC/9535/7398—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Geetanji Handlooms Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies.

Kanpur-208001, the 21st July 2003

No. 560(5)/LC/7435—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved:

Sl. No.	Co. No.	Company Name
1.	8727	M/s. P. C. Agarwal and Associate Private Limited
2.	22446	M/s. Supreme Components Private Limited
3.	22444	M/s. Marvel Auto Components Private Limited
4.	22496	M/s. Select Components Private Limited
5.	18462	M/s. Mohan Finlease Private Limited
6.	3250	M/s. Malik Publishers Private Limited

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies.

Mumbai-400002, the 11th July 2003

No. 560(5)/2000—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved:

Sl. No.	Co. No.	Company Name
1	2	3
1.	96015	M/s. Nirmiti Agro Products Private Limited
2.	101073	M/s. Lapal Medical Products Private Limited
3.	46054	M/s. Hezil Builders & Leasing Private Limited
4.	72104	M/s. Nikumbh Milk Private Limited
5.	80355	M/s. Amtico Exports Limited
6.	97403	M/s. Gujrat Investments & Finance Private Limited
7.	79740	M/s. Altop Investments & Finance Private Limited
8.	87138	M/s. Speedage Properties Private Limited

1	2	3
9.	88835	M/s. P. Manish Impex Private Limited
10.	114085	M/s. Aavishkar Plantations Limited
11.	85939	M/s. Twins Marketing & Finance Private Limited
12.	119433	M/s. Lokhandwala Human Resource Services Private Limited
13.	119502	M/s. Lokhandwala Consolidation Services Private Limited
14.	88772	M/s. Sonu Credit Private Limited.

SHYAM SUNDER
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies.

Bangalore-560034, the 11th July 2003

No. JTA/PS/560(3)/2003-2004—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following Companies, unless cause is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	30480	M/s. Aldes Air Technologies Private Limited
2.	22653	M/s. Netinfo India Private Limited
3.	28166	M/s. Jthru Technologies Limited
4.	24541	M/s. Apex Datasoft Private Limited
5.	28485	M/s. Altium Technologies Private Limited
6.	27717	M/s. Priya E-Ventures Private Limited
7.	28051	M/s. Nu Lambda Technology Solutions Limited
8.	29107	M/s. Rad Datacom (India) Private Limited
9.	26690	M/s. Challenge Information Systems Private Limited
10.	30320	M/s. Quarry Specialists Private Limited
11.	28445	M/s. Emgee Software Private Limited
12.	30321	M/s. Pave Specialists Private Limited.

T. S. D. PRASADA RAO
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies.

Coimbatore-641005, the 21st July 2003

No. ROC/560(3)/2003—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the names of the following Companies, unless cause is shown to contrary, will be struck off from the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Reg. No.	Company Name	Reg. date	A-Cap (000)
1	2	3	4	5
1.	210	M/s. Sri Seshadri Sai Printing and Publishing House Private Limited	20.06.1947	100
2.	5212	M/s. Sakthimurugan Apparels Private Limited.	13.07.1994	1000
3.	3467	M/s. Sanjay Raja Finance and Investments Limited	09.10.1991	10000
4.	7194	M/s. GES Electrotechnologies Private Limited	16.05.1996	500
5.	1733	M/s. Arulmigu Karumariamman Movies P. Ltd.	05.02.1986	100
6.	1775	M/s. Mangal Jothi Finance and Leasing P. Ltd.	07.05.1986	1000
7.	3298	M/s. Saroj International Private Limited	14.06.1991	5000
8.	1776	M/s. Amarjothi Real Estates and Housing Finance P. Ltd.	07.05.1986	1000
9.	5370	M/s. Palani Vysya Benefit Fund Limited	26.09.1994	2500
10.	2420	M/s. Divine Exports (India) Pvt. Ltd.	20.04.1989	1500
11.	7553	M/s. Haitima Fittings Limited	12.11.1996	2500
12.	2761	M/s. Erode Tannery Effluent Treatment Company Ltd.	21.06.1990	30000
13.	5507	M/s. Dhivyadharshan Chit Fund Private Limited	15.11.1994	300
14.	5115	M/s. Rajendra Computers Private Limited.	10.06.1994	200
15.	5013	M/s. Eashwar Polyroots Private Limited	21.04.1994	1000
16.	2179	M/s. Textem Knitting Mills Pvt. Ltd.	26.05.1988	1000
17.	4203	M/s. Kovai Clothing Company Private Limited	12.01.1993	500
18.	1687	M/s. Mercury Food Products Pvt. Ltd.	24.10.1985	1500
19.	3516	M/s. LMW Management Services Limited	25.11.1991	1000
20.	9997	M/s. Brand Kraaft Advertising Services India Private Limited	14.12.2001	500
21.	6276	M/s. Glenview Hotel Limited	28.06.1995	3000
22.	3028	M/s. Hotel Thoulath Pvt. Ltd.	11.09.1989	3000
23.	3424	M/s. Ooty Garments Private Limited	05.09.1991	1500
24.	4135	M/s. Pudumai Pathippagam Private Limited	26.11.1992	100
25.	1488	M/s. Sri Vigeneswara Chit Fund Pvt. Ltd.	26.09.1984	200
26.	2839	M/s. Pillaiyarappan Chits Private Limited	27.08.1990	200
27.	7276	M/s. Jagenberg-Servall Papertechnic Private Limited	13.06.1996	10000
28.	2765	M/s. Sri Gowri Steel Mills Pvt. Ltd.	22.06.1990	2500
29.	6157	M/s. Ditet Chemicals Private Limited	26.05.1995	400
30.	7924	M/s. Rathom Textile Exports Private Limited	21.05.1997	2000
31.	6062	M/s. Poosam Constructions Private Limited	24.04.1995	2500
32.	6450	M/s. Sri Ponkalamman Finance Company Private Limited	22.08.1995	1000

1	2	3	4	5
33.	2213	M/s. Vinner Pumps Pvt. Ltd.	11.07.1988	500
34.	5213	M/s. S.M.S. Housing Private Limited	14.70.1994	500
35.	538	M/s. Sri Umayambika Chit Fund Pvt Ltd.	07.09.1964	400
36.	3360	M/s. Textcity Textiles (P) Ltd.	15.07.1991	3000
37.	9511	M/s. Royal Avenue Shelters Private Limited (Trans. from Chennai).	29.09.2000	5000
38.	6122	M/s. Thiudiyalur Muthusamy Kaliasammal Finance Private Ltd.	10-05-1995	1000
39.	4599	M/s. Herbys Aqua Farms Private Limited	20.09.1993	1000
40.	9287	M/s. Shylendran Finance Private Limited (Part IX)	31.03.2000	500
41.	6630	M/s. RTAM Financial and Information Services Private Ltd.	26.10.1995	1000
42.	2419	M/s. Madras Pioneer Plastrochem Pvt. Ltd.	20.04.1989	500
43.	7464	M/s. Devothung Property Developers Private Limited	12.09.1996	500
44.	6312	M/s. Yaley Finance Private Limited	05.07.1995	200
45.	6377	M/s. Jay Yess Jay Chits Private Limited	27.07.1995	120
46.	7066	M/s. Rajaraja Sainath Chit Funds Private Limited	22.03.1996	100
47.	1893	M/s. Group One Estate Developers and Builders Pvt. Ltd.,	18.12.1986	500
48.	3163	M/s. Sri Chendur Finance Pvt. Ltd.	01.03.1991	1000
49.	1380	M/s. Aloha Travels Pvt. Ltd.	22.02.1984	500
50.	1305	M/s. Sree Utham Textiles Spinners and Processors Pvt. Ltd.	07.07.1983	90
51.	5838	M/s. Sugam Benefit Fund Limited	23.02.1995	500
52.	5084	M/s. Sree Yogalakshmi Packaging Private Limited	24.05.1994	500
53.	7155	M/s. S.L.S.N. Consultancy Service Private Limited	24.04.1996	500
54.	4156	M/s. Carthic Hire Purchase Private Limited	09.12.1992	500
55.	4425	M/s. Sharp Agro India Limited	26.05.19993	2500
56.	8612	M/s. Siva Carthic Commercial Finance Limited	15.10.1998	2500
57.	635	M/s. Jayalakshmi Engineering Manufacturers Pvt. Ltd.	23.08.1971	1000
58.	7587	M/s. Kaybeekay Engineering Industries Private Limited	03.12.1996	1000
59.	4680	M/s. Dharan Spinners Private Limited	10.11.1993	7500
60.	3025	M/s. Corrogonon Chemicals Pvt. Ltd.	07.09.1989	1000
61.	5643	M/s. Sundar Wire Techno Private Limited	28.12.1994	100
62.	7119	M/s. Selvarajaganesh Chits Private Limited	11.04.1996	100
63.	4488	M/s. Sanjeevi Super Market Private Limited	09.07.1993	500
64.	6147	M/s. Vendhan Finance and Investments Private Limited	25.05.1995	400
65.	3541	M/s. Imaiya Finance Private Limited	11.12.1991	2500
66.	5663	M/s. Cottoncity Securities Private Limited	03.01.1995	1000
67.	5594	M/s. Chozhanadu Finance and Investments Private Limited	12.12.1994	1000
68.	7072	M/s. S.S.P. Dynamic Engineering India Private Limited	25.03.1996	500
69.	9463	M/s. Sri R.B.S. Spinnings Private Limited (T)	28.08.2000	500
70.	6430	M/s. Anicha Stocks and Shares Private Limited	14.08.1995	1000

1	2	3	4	5
71.	4406	M/s. Elegant Knitters Private Limited	21.05.1993	500
72.	4040	M/s. Sakthi Savithiry Chit Funds Private Limited	25.09.1992	100
73.	7820	M/s. Vredestein Elgi Recycling Private Limited	31.03.1997	10000
74.	717	M/s. Kamadhenu Drinks and Distilleries Ltd.	12.11.1974	1500
75.	6220	M/s. Sunco Biotech Limited	15.06.1995	3000
76.	6490	M/s. Gnanasarovar Finance Limited	04.09.1995	5000
77.	5617	M/s. R.L.V. Benefit Fund Limited	21.12.1994	2500
78.	1953	M/s. Raghuram Precision Industries Pvt. Ltd.	15.04.1987	200
79.	6081	M/s. R.L.V. Export Import Associates India Private Ltd.	27.04.1995	500
80.	7778	M/s. Pacific Partners Franchise Development India Pvt. Ltd.	12.03.1997	500
81.	1498	M/s. Girison Appliances Private Limited	17.10.1984	250
82.	3963	M/s. D.E.C. Pvt. Ltd.	29.06.1962	100
83.	3612	M/s. Chita Silk Private Limited	29.01.1992	500
84.	3242	M/s. Super Ten Textile Exporters Pvt. Ltd.	16.04.1991	1000
85.	2011	M/s. Best Complex Pvt. Ltd.	20.07.1987	1000
86.	3732	M/s. A.R.R. Granites Private Limited	21.04.1992	1000
87.	4124	M/s. Cosmos Chit Fund Private Limited	20.11.1992	1000
88.	3312	M/s. United Cabs (P) Ltd.	03.07.1991	500
89.	1210	M/s. Keartiman Chits and finance Pvt. Ltd.	23.08.1982	200
90.	296	M/s. S. G. Jayaraj Nadar & Sons Pvt. Ltd.	13.03.1959	100
91.	4837	M/s. Growmax Finance Private Limited	09.02.1994	300
92.	6940	M/s. Lifetime Properties Private Limited	09.02.1996	500
93.	7758	M/s. Seagull Technologies Private Limited	05.03.1997	1000
94.	5549	M/s. A.R.R. Textile Mills Private Limited	30.11.1994	1000
95.	6965	M/s. Pioneer Bio Fuels Private Limited	22.02.1996	1000
96.	3052	Nianthrini Leasing and Investments Pvt. Ltd.	12.10.1989	500
97.	4449	M/s. Keshav Travels Private Limited	01.06.1993	100
98.	9750	M/s. Ammu Marketing Private Limited	18.05.2001	100
99.	6026	M/s. Sivamala Finance Limited	06.04.1995	5000
100.	9053	M/s. Vetel Softnet Technologies Private Limited	22.10.1999	2500
101.	8444	M/s. Regal Paper and Boards Private Limited	10.06.1998	5000
102.	7771	M/s. Janageeswari Chits Private Limited	11.03.1997	500
103.	6162	M/s. Ganapathy Sivavilas Chit Funds Private Limited	26.05.1995	300
104.	40	M/s. Coimbatore Janopakara Finance & Chit Funds Ltd.	22.06.1918	100
105.	5730	M/s. Om Mangalanayagi Chits Private Limited	30.01.1995	200
106.	4171	M/s. Southern Stone Products (India) Private Limited	21.12.1992	1500
107.	191	M/s. South Indian Rubber Works Ltd.	14.01.1937	300
108.	1574	M/s. Girinath Marbles Pvt. Ltd.	15.03.1985	500

1	2	3	4	5
109.	5125	M/s. C. & W. Tools Private Limited	14.06.1994	2000
110.	383	M/s. Jaya Credits Pvt. Ltd.	07.01.1961	1000
111.	355	M/s. Packiam Roadways Pvt. Ltd.	30.03.1960	300
112.	9793	M/s. SLRS Software Private Limited	20.06.2001	100
113.	9244	M/s. Valency Softek Infosys Private Limited	15.03.2000	100
114.	7180	M/s. AGT Equipments Private Limited	07.05.1996	2000
115.	5747	M/s. Gangotri Spinners Limited	01.02.1995	50000
116.	4606	M/s. RST Finance and Leasing Private Limited	22.09.1993	500
117.	6111	M/s. Mriganka Holdings and Investments Private Limited	04.05.1995	1000
118.	2799	M/s. Ennardee Chits Pvt. Ltd.	12.07.1990	500
119.	3500	M/s. T.K.S. Financial Services Private Limited	11.11.1991	500
120.	6415	M/s. Sri Thankamman Finance Private Limited	07.08.1995	500
121.	8142	M/s. Origo Technologies Private Limited	22.10.1997	1000
122.	5707	M/s. G.N.M. Shares Private Limited	20.01.1995	1000
123.	9685	M/s. Cohesion Softwares and Services (India) Private Ltd.	19.03.2001	500
124.	5442	M/s. Rasagontalugovardhna Investment and Finance Pvt. Ltd.	20.10.1994	5000
125.	7695	M/s. Vetri International Private Limited	04.02.1997	5000
126.	3349	M/s. Dee Dee Investments (P) Ltd.	15.07.1991	500
127.	6224	M/s. Armstrong Clothing Private Limited	19.06.1995	1000
128.	3982	M/s. Adhilakshmi Finance and Investment Co. Ltd.	07.04.1983	2500
129.	5622	M/s. Sri Selvalakshmi Dairy Products Private Limited	21.12.1994	1000
130.	1504	M/s. Prema Chit Funds Pvt. Ltd.	20.10.1984	500
131.	4392	M/s. Coimbatore Sterling Chit Funds Private Limited	11.05.1993	200
132.	7030	M/s. T.T. Foods Private Limited	11.03.1996	7500
133.	7693	M/s. T.R.S. Nitrum Private Limited	03.02.1997	3000
134.	290	M/s. Kalyani Transports Pvt. Ltd.	16.12.1958	100
135.	2618	M/s. Kovai Secretarial & Financial Services Pvt. Ltd.	16.02.1990	500
136.	7153	M/s. Cartel Cable Communications Private Limited	23.04.1996	200
137.	6295	M/s. Gobald Finance Limited	03.07.1995	1000
138.	1944	M/s. Avanashi Power Looms Pvt. Ltd.	02.04.1987	5000
139.	4065	M/s. Vishnulakshmi Chit Funds Private Limited	12.10.1992	2500
140.	4173	M/s. Namakkal Lena Chits Private Limited	21.12.1992	200
141.	4526	M/s. Diamond Financial Services (Coimbatore) Pvt. Ltd.	27.07.1993	500
142.	5024	M/s. Salem Satsystems Private Limited	25.04.1994	300
143.	6324	M/s. SBF Chit Funds Private Limited	07.07.1995	500
144.	6325	M/s. SBF Financial Services Private Limited	07.07.1995	500
145.	3301	M/s. Challenger Chemicals Private Limited	17.06.1991	1000
146.	6916	M/s. V.S.J. Construction and Leasing Private Limited	02.02.1996	200

1	2	3	4	5
147.	2335	M/s. Idhayam Finance Pvt. Ltd.	10.01.1989	2500
148.	1680	M/s. L.K.P. Agro Industries and Agencies Pvt. Ltd.	14.10.1985	3000
149.	4540	M/s. Erode Shri Ramakrishna Chits Private Ltd.	19.08.1993	500
150.	1423	M/s. Magudapathy Textiles Pvt. Ltd.	18.05.1984	500
151.	1689	M/s. Pranka Pressing and Stamping Pvt. Ltd.	07.11.1985	2500
152.	2356	M/s. Expand Couriers Pvt. Ltd.	16.02.1989	100
153.	5418	M/s. Kothagiri Wattle Extraction & Chemical Factory Pvt. Ltd.	07.10.1994	1000
154.	2915	M/s. Hamsam Financial Services Pvt. Ltd.	26.10.1990	100
155.	6212	M/s. Datalog Info-Tech Private Limited	14.06.1995	500
156.	4921	M/s. Biogen Plantations Private Limited	11.03.1994	1000
157.	7632	M/s. Everflow Finance Private Limited	27.12.1996	500
158.	3203	M/s. Kongu Maharaja Finance Limited	25.03.1991	2400
159.	2920	M/s. Endapally Ashwin Mills Pvt. Ltd.	05.11.1990	1000
160.	5012	M/s. Vigna Vinayaka Chit Funds Private Limited	21.04.1994	200
161.	4760	M/s. Majestic Travels Private Limited	03.01.1994	500
162.	4539	M/s. Knitking Fabric (India) Private Limited	19.08.1993	3000
163.	7029	M/s. N.M.S. Chits Private Limited	11.03.1996	500
164.	1675	M/s. Sri Vishnuram Financiers Pvt. Ltd.	03.10.1985	2100
165.	3179	M/s. Tex India Spinners Pvt. Ltd.	20.03.1991	5000
166.	6912	M/s. Promo Five Enterprises Private Limited	02.02.1996	3600
167.	819	M/s. Sakthi Engineers & Consultants Pvt. Ltd.	27.09.1978	500
168.	2378	M/s. G.S. Garments Pvt. Ltd.	03.03.1989	200
169.	1160	M/s. Sulochana Textile Pvt. Ltd.	22.03.1982	200
170.	5778	M/s. Sivamala Chit Funds Private Limited	09.02.1995	300
171.	7824	M/s. Gunashree Agency Private Limited	01.04.1997	4500
172.	7780	M/s. Busy Boy Consultants Private Limited	12.03.1997	50
173.	1873	M/s. Sugavaneswara Textiles Pvt. Ltd.	27.11.1986	20
174.	1866	M/s. Valapady Srinivasa Fabrics Pvt. Ltd.	19.11.1986	20
175.	1803	M/s. Rajarajan Textiles Machinery Manufactures Pvt. Ltd.	26.06.1986	1000
176.	7009	M/s. Gugai Salem Dyeing Common Effluent Treatment Company Limited.	06.03.1996	2500
177.	6906	M/s. H.R. Benefit Fund Limited	01.02.1996	2000
178.	7480	M/s. Cauvery Institute of Information Technology Pvt. Ltd.	24.09.1996	300
179.	6463	M/s. Armada Real Estates and Construction Agencies Private Limited.	24.08.1995	1000
180.	3546	M/s. Sri Maharaja Vanaspati Products (P) Ltd.	11.12.1991	5000
181.	7075	M/s. Helvetica Financial and Investment Private Limited	26.03.1996	500
182.	8409	M/s. B.F.S. Exports Private Limited	04.05.1998	2500

1	2	3	4	5
183.	4391	M/s. Sharp Equipment Private Limited	10.05.1993	1000
184.	3789	M/s. Salzer Resorts Limited	18.06.1992	1000
185.	5728	M/s. Shawin Textiles Private Limited	30.01.1995	500
186.	6225	M/s. Texcity Benefit Fund Limited	19.06.1995	1000
187.	1119	M/s. Hamsalakshmi Mills Pvt. Ltd.	12.11.1981	900
188.	1375	M/s. Ramraj Investments Pvt. Ltd.	18.01.1984	500
189.	6154	M/s. Multi Plus Finance Pvt. Ltd.		500

V. SELVARAJ
Registrar of Companies
Tamilnadu